

एनईआर के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday Forecast For NER

दिनांक/Date: 3/26/2025

| तिथि और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 2002 | 2094 | 2071 | 70 | 22 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 1967 | 2057 | 2033 | 67 | 24 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 1938 | 2028 | 2016 | 78 | 11 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 1917 | 2005 | 1991 | 74 | 14 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 1900 | 1987 | 1966 | 66 | 21 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 1881 | 1968 | 1944 | 62 | 24 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 1867 | 1953 | 1935 | 68 | 18 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 1860 | 1946 | 1924 | 64 | 21 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 1864 | 1949 | 1924 | 60 | 26 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 1880 | 1966 | 1935 | 55 | 32 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 1897 | 1984 | 1957 | 60 | 27 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 1910 | 1998 | 1964 | 54 | 33 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 1907 | 1995 | 1960 | 52 | 35 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 1890 | 1977 | 1941 | 52 | 35 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 1866 | 1952 | 1886 | 19 | 67 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 1845 | 1930 | 1879 | 34 | 51 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 1833 | 1918 | 1866 | 33 | 52 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 1824 | 1908 | 1833 | 9 | 74 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 1817 | 1900 | 1824 | 7 | 77 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 1822 | 1906 | 1853 | 31 | 53 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 1846 | 1866 | 1895 | 50 | 30 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 1894 | 1914 | 1951 | 58 | 37 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 1955 | 1976 | 2005 | 50 | 29 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 2030 | 2052 | 2049 | 18 | 4 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 2108 | 2131 | 2111 | 3 | 20 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 2186 | 2210 | 2166 | 20 | 44 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 2257 | 2282 | 2214 | 43 | 67 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 2316 | 2341 | 2230 | 86 | 111 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 2360 | 2386 | 2259 | 101 | 127 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 2388 | 2413 | 2317 | 71 | 97 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 2402 | 2428 | 2355 | 47 | 73 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 2401 | 2427 | 2350 | 51 | 77 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 2391 | 2319 | 2323 | 68 | 4 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 2371 | 2300 | 2288 | 84 | 13 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 2354 | 2283 | 2284 | 69 | 1 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 2334 | 2265 | 2259 | 75 | 5 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 2329 | 2260 | 2289 | 40 | 30 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 2318 | 2249 | 2288 | 30 | 39 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 2313 | 2244 | 2281 | 32 | 37 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 2297 | 2228 | 2275 | 22 | 47 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 2296 | 2227 | 2304 | 8 | 77 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 2290 | 2222 | 2314 | 24 | 93 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 2290 | 2222 | 2359 | 69 | 137 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 2285 | 2217 | 2366 | 81 | 150 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 2286 | 2303 | 2369 | 84 | 67 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 2291 | 2308 | 2359 | 68 | 51 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 2299 | 2316 | 2353 | 54 | 37 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 2314 | 2331 | 2372 | 58 | 41 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 2327 | 2424 | 2350 | 23 | 74 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 2338 | 2435 | 2357 | 19 | 79 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 2346 | 2444 | 2384 | 39 | 59 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 2347 | 2445 | 2375 | 28 | 70 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 2346 | 2444 | 2377 | 31 | 67 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 2347 | 2445 | 2400 | 53 | 45 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 2358 | 2456 | 2424 | 66 | 33 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 2373 | 2472 | 2433 | 60 | 39 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 2394 | 2494 | 2449 | 55 | 45 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 2412 | 2513 | 2494 | 82 | 19 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 2429 | 2531 | 2531 | 102 | 0 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 2433 | 2535 | 2555 | 122 | 20 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 2442 | 2544 | 2590 | 148 | 46 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 2462 | 2565 | 2611 | 149 | 46 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 2493 | 2597 | 2639 | 146 | 41 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 2534 | 2639 | 2688 | 155 | 49 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 2563 | 2670 | 2708 | 145 | 37 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 2593 | 2701 | 2690 | 97 | 11 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 2624 | 2733 | 2724 | 100 | 9 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 2664 | 2776 | 2769 | 105 | 7 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 2720 | 2833 | 2776 | 56 | 57 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 2793 | 2909 | 2826 | 33 | 84 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 2891 | 3012 | 2927 | 36 | 85 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 2998 | 3123 | 3030 | 32 | 93 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 3073 | 3201 | 3144 | 72 | 57 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 3097 | 3226 | 3131 | 34 | 95 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 3080 | 3209 | 3095 | 15 | 114 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 3051 | 3179 | 3045 | 7 | 134 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 3023 | 3119 | 2998 | 25 | 121 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 2987 | 3082 | 3006 | 19 | 77 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 2955 | 3050 | 2988 | 33 | 61 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 2927 | 3021 | 2952 | 25 | 69 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 2904 | 2969 | 2965 | 61 | 4 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 2876 | 2940 | 2939 | 63 | 1 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 2842 | 2904 | 2891 | 50 | 13 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 2803 | 2865 | 2840 | 37 | 25 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 2752 | 2813 | 2784 | 32 | 29 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 2695 | 2755 | 2704 | 9 | 50 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 2626 | 2684 | 2641 | 15 | 43 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 2559 | 2616 | 2588 | 29 | 28 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 2492 | 2547 | 2532 | 40 | 15 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 2428 | 2481 | 2479 | 51 | 3 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 2364 | 2417 | 2406 | 42 | 10 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 2307 | 2358 | 2366 | 59 | 8 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 2252 | 2302 | 2311 | 59 | 9 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 2200 | 2249 | 2252 | 52 | 3 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 2147 | 2195 | 2186 | 38 | 9 |

| | | | | | | |
|----|---------------|------|------|------|----|---|
| 96 | 23:45 - 24:00 | 2094 | 2141 | 2133 | 39 | 8 |
|----|---------------|------|------|------|----|---|

अरुणाचल प्रदेश के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Forecasting Error For Day Ahead and Intraday Forecast For Arunachal Pradesh

दिनांक/Date: 3/26/2025

| तिथि और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 109 | 108 | 104 | 5 | 4 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 105 | 104 | 103 | 2 | 1 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 103 | 102 | 106 | 3 | 4 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 104 | 103 | 102 | 2 | 1 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 104 | 104 | 105 | 0 | 1 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 103 | 102 | 103 | 0 | 1 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 103 | 102 | 104 | 1 | 2 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 103 | 102 | 102 | 1 | 0 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 102 | 101 | 103 | 1 | 2 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 102 | 101 | 98 | 4 | 3 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 101 | 100 | 96 | 5 | 4 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 102 | 101 | 101 | 1 | 0 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 98 | 97 | 100 | 2 | 2 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 97 | 96 | 99 | 2 | 3 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 96 | 95 | 96 | 0 | 1 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 97 | 96 | 95 | 2 | 1 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 97 | 96 | 97 | 1 | 0 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 98 | 98 | 99 | 0 | 1 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 100 | 99 | 99 | 2 | 1 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 103 | 102 | 103 | 0 | 1 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 106 | 105 | 107 | 0 | 1 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 109 | 108 | 112 | 3 | 4 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 114 | 113 | 117 | 3 | 4 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 120 | 119 | 116 | 4 | 3 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 128 | 127 | 120 | 7 | 6 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 132 | 131 | 127 | 5 | 4 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 134 | 133 | 127 | 8 | 6 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 137 | 136 | 123 | 14 | 13 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 141 | 139 | 122 | 19 | 18 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 143 | 142 | 128 | 15 | 13 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 144 | 143 | 135 | 9 | 8 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 143 | 142 | 133 | 9 | 8 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 142 | 137 | 131 | 10 | 6 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 139 | 134 | 130 | 10 | 5 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 136 | 131 | 131 | 5 | 0 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 130 | 125 | 129 | 1 | 4 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 125 | 121 | 124 | 2 | 3 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 120 | 116 | 121 | 0 | 5 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 119 | 114 | 123 | 4 | 8 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 115 | 111 | 121 | 6 | 10 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 115 | 111 | 117 | 2 | 6 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 114 | 110 | 114 | 0 | 4 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 115 | 111 | 115 | 0 | 5 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 115 | 111 | 118 | 3 | 7 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 115 | 113 | 124 | 9 | 11 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 118 | 115 | 126 | 8 | 11 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 119 | 117 | 125 | 6 | 8 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 122 | 120 | 123 | 1 | 3 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 123 | 123 | 118 | 5 | 5 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 123 | 123 | 117 | 7 | 6 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 122 | 122 | 119 | 3 | 3 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 121 | 121 | 119 | 2 | 1 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 119 | 119 | 119 | 0 | 0 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 119 | 119 | 116 | 3 | 3 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 119 | 119 | 117 | 2 | 2 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 118 | 118 | 123 | 5 | 5 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 118 | 118 | 124 | 6 | 6 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 118 | 118 | 124 | 6 | 6 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 120 | 120 | 126 | 6 | 6 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 120 | 120 | 128 | 7 | 8 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 122 | 122 | 129 | 7 | 7 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 122 | 122 | 128 | 6 | 6 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 123 | 123 | 132 | 9 | 9 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 123 | 123 | 131 | 8 | 8 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 124 | 126 | 131 | 8 | 6 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 125 | 127 | 130 | 5 | 3 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 128 | 130 | 131 | 3 | 1 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 130 | 132 | 131 | 1 | 1 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 133 | 135 | 136 | 3 | 1 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 138 | 140 | 143 | 6 | 3 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 145 | 147 | 146 | 1 | 1 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 152 | 154 | 158 | 6 | 4 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 156 | 159 | 163 | 7 | 4 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 159 | 162 | 167 | 7 | 5 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 162 | 165 | 167 | 5 | 3 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 164 | 167 | 166 | 2 | 0 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 165 | 167 | 169 | 5 | 2 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 163 | 166 | 168 | 5 | 2 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 161 | 164 | 162 | 1 | 2 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 159 | 161 | 158 | 1 | 4 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 157 | 159 | 158 | 1 | 1 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 154 | 157 | 153 | 1 | 4 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 152 | 154 | 150 | 2 | 4 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 148 | 151 | 146 | 3 | 5 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 142 | 145 | 144 | 2 | 0 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 138 | 140 | 130 | 8 | 10 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 133 | 136 | 127 | 6 | 8 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 131 | 133 | 130 | 1 | 3 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 127 | 129 | 130 | 3 | 1 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 124 | 126 | 124 | 0 | 2 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 122 | 123 | 121 | 1 | 3 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 119 | 120 | 118 | 0 | 2 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 115 | 117 | 115 | 0 | 2 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 111 | 113 | 115 | 3 | 2 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 108 | 110 | 110 | 2 | 0 |

| | | | | | | |
|----|---------------|-----|-----|-----|---|---|
| 96 | 23:45 - 24:00 | 106 | 108 | 107 | 1 | 1 |
|----|---------------|-----|-----|-----|---|---|

**असम के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Forecasting Error For Day Ahead and Intraday
Forecast For Assam**

दिनांक/Date: 3/26/2025

| तिथि और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 1178 | 1246 | 1248 | 70 | 1 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 1159 | 1226 | 1221 | 62 | 5 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 1143 | 1209 | 1213 | 71 | 4 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 1131 | 1196 | 1200 | 69 | 4 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 1117 | 1182 | 1179 | 62 | 3 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 1108 | 1172 | 1169 | 61 | 3 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 1098 | 1162 | 1159 | 61 | 2 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 1096 | 1160 | 1156 | 60 | 4 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 1104 | 1168 | 1153 | 50 | 14 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 1122 | 1187 | 1171 | 49 | 15 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 1140 | 1206 | 1194 | 55 | 11 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 1149 | 1216 | 1196 | 47 | 19 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 1148 | 1215 | 1188 | 40 | 26 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 1135 | 1201 | 1174 | 39 | 27 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 1115 | 1180 | 1124 | 9 | 56 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 1096 | 1159 | 1113 | 18 | 46 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 1077 | 1139 | 1101 | 24 | 38 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 1059 | 1120 | 1082 | 23 | 38 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 1042 | 1103 | 1060 | 18 | 43 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 1034 | 1094 | 1073 | 39 | 21 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 1034 | 1054 | 1074 | 40 | 20 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 1044 | 1064 | 1086 | 42 | 22 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 1064 | 1084 | 1099 | 35 | 15 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 1095 | 1115 | 1124 | 29 | 8 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 1133 | 1155 | 1164 | 31 | 9 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 1172 | 1194 | 1190 | 19 | 4 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 1207 | 1230 | 1212 | 5 | 18 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 1235 | 1258 | 1228 | 7 | 30 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 1257 | 1281 | 1263 | 6 | 18 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 1271 | 1295 | 1301 | 30 | 6 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 1282 | 1306 | 1335 | 53 | 29 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 1289 | 1314 | 1358 | 69 | 44 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 1293 | 1318 | 1352 | 59 | 34 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 1291 | 1316 | 1322 | 31 | 6 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 1291 | 1316 | 1327 | 35 | 11 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 1297 | 1322 | 1323 | 26 | 1 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 1313 | 1338 | 1348 | 35 | 10 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 1328 | 1353 | 1367 | 40 | 14 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 1342 | 1367 | 1373 | 31 | 6 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 1347 | 1373 | 1367 | 20 | 6 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 1355 | 1381 | 1398 | 43 | 17 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 1360 | 1386 | 1435 | 75 | 49 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 1366 | 1392 | 1481 | 115 | 89 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 1365 | 1391 | 1477 | 112 | 86 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 1361 | 1387 | 1472 | 111 | 85 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 1361 | 1387 | 1460 | 99 | 73 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 1368 | 1394 | 1468 | 100 | 74 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 1382 | 1408 | 1483 | 101 | 74 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 1396 | 1500 | 1481 | 85 | 19 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 1407 | 1512 | 1482 | 75 | 30 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 1418 | 1524 | 1507 | 89 | 17 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 1421 | 1527 | 1497 | 76 | 29 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 1421 | 1527 | 1492 | 71 | 35 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 1422 | 1527 | 1513 | 91 | 15 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 1429 | 1535 | 1523 | 94 | 13 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 1435 | 1542 | 1514 | 79 | 27 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 1440 | 1548 | 1528 | 88 | 20 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 1442 | 1549 | 1558 | 116 | 9 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 1445 | 1553 | 1584 | 139 | 31 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 1441 | 1548 | 1594 | 153 | 46 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 1438 | 1545 | 1601 | 163 | 56 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 1440 | 1547 | 1597 | 157 | 50 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 1452 | 1560 | 1599 | 147 | 39 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 1472 | 1582 | 1630 | 158 | 48 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 1486 | 1597 | 1630 | 144 | 33 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 1499 | 1611 | 1599 | 100 | 12 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 1507 | 1619 | 1618 | 111 | 1 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 1523 | 1636 | 1643 | 120 | 7 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 1547 | 1663 | 1625 | 77 | 38 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 1586 | 1704 | 1644 | 58 | 60 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 1641 | 1763 | 1704 | 63 | 59 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 1705 | 1832 | 1761 | 56 | 71 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 1750 | 1881 | 1825 | 75 | 56 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 1768 | 1900 | 1818 | 50 | 81 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 1760 | 1891 | 1798 | 38 | 93 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 1749 | 1879 | 1795 | 46 | 84 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 1739 | 1846 | 1747 | 8 | 98 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 1732 | 1838 | 1762 | 29 | 77 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 1724 | 1830 | 1762 | 38 | 67 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 1718 | 1823 | 1752 | 35 | 70 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 1711 | 1790 | 1785 | 75 | 5 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 1701 | 1780 | 1783 | 82 | 3 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 1687 | 1765 | 1759 | 73 | 6 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 1666 | 1743 | 1731 | 65 | 13 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 1641 | 1717 | 1695 | 53 | 23 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 1611 | 1686 | 1656 | 45 | 30 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 1576 | 1649 | 1622 | 47 | 27 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 1540 | 1612 | 1594 | 54 | 18 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 1508 | 1578 | 1560 | 53 | 17 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 1478 | 1547 | 1537 | 59 | 10 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 1446 | 1513 | 1499 | 53 | 14 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 1414 | 1480 | 1476 | 62 | 4 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 1383 | 1447 | 1444 | 62 | 2 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 1350 | 1413 | 1400 | 50 | 13 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 1314 | 1375 | 1357 | 43 | 18 |

| | | | | | | |
|----|---------------|------|------|------|----|----|
| 96 | 23:45 - 24:00 | 1278 | 1338 | 1320 | 42 | 17 |
|----|---------------|------|------|------|----|----|

**माणिपुर के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday
Forecast For Manipur**

दिनांक/Date: 3/26/2025

| तिथि और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 87 | 85 | 79 | 8 | 6 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 85 | 83 | 78 | 7 | 5 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 83 | 81 | 78 | 5 | 2 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 81 | 79 | 77 | 4 | 2 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 80 | 77 | 75 | 4 | 2 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 78 | 76 | 74 | 4 | 1 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 77 | 75 | 74 | 3 | 1 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 76 | 74 | 73 | 3 | 0 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 76 | 74 | 74 | 3 | 0 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 77 | 74 | 75 | 2 | 1 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 77 | 75 | 77 | 1 | 2 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 78 | 76 | 78 | 0 | 3 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 79 | 76 | 78 | 0 | 2 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 79 | 76 | 80 | 1 | 4 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 79 | 76 | 80 | 1 | 4 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 79 | 76 | 81 | 2 | 5 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 80 | 77 | 82 | 2 | 5 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 82 | 79 | 86 | 4 | 7 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 85 | 83 | 92 | 6 | 9 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 92 | 89 | 101 | 9 | 12 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 101 | 100 | 115 | 14 | 15 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 113 | 112 | 136 | 23 | 24 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 124 | 123 | 153 | 28 | 29 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 134 | 132 | 143 | 9 | 10 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 140 | 139 | 133 | 7 | 5 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 146 | 144 | 129 | 17 | 15 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 150 | 149 | 132 | 18 | 17 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 154 | 153 | 132 | 22 | 21 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 157 | 150 | 133 | 23 | 16 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 158 | 151 | 130 | 28 | 21 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 158 | 151 | 116 | 41 | 35 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 158 | 151 | 106 | 52 | 45 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 158 | 141 | 119 | 39 | 23 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 158 | 142 | 135 | 23 | 6 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 158 | 141 | 137 | 21 | 5 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 155 | 139 | 123 | 32 | 16 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 153 | 129 | 135 | 18 | 6 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 150 | 127 | 134 | 16 | 7 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 148 | 125 | 129 | 19 | 4 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 145 | 122 | 124 | 21 | 1 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 143 | 121 | 131 | 12 | 10 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 141 | 119 | 129 | 12 | 10 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 140 | 118 | 127 | 13 | 9 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 137 | 116 | 124 | 12 | 9 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 134 | 115 | 120 | 14 | 5 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 130 | 112 | 117 | 13 | 5 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 126 | 108 | 114 | 12 | 6 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 122 | 105 | 111 | 11 | 6 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 116 | 101 | 106 | 9 | 5 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 109 | 96 | 103 | 6 | 7 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 105 | 91 | 101 | 3 | 10 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 106 | 92 | 103 | 3 | 10 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 107 | 95 | 104 | 3 | 8 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 107 | 95 | 105 | 2 | 10 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 106 | 95 | 105 | 1 | 11 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 107 | 95 | 106 | 1 | 11 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 109 | 100 | 108 | 1 | 8 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 111 | 102 | 112 | 1 | 10 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 115 | 105 | 112 | 3 | 7 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 119 | 109 | 117 | 2 | 8 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 123 | 116 | 125 | 2 | 9 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 128 | 120 | 130 | 2 | 10 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 133 | 125 | 130 | 4 | 4 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 140 | 131 | 136 | 4 | 4 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 146 | 139 | 142 | 4 | 2 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 152 | 145 | 152 | 0 | 7 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 159 | 152 | 157 | 2 | 5 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 166 | 159 | 157 | 9 | 2 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 174 | 166 | 167 | 7 | 0 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 182 | 174 | 174 | 8 | 0 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 190 | 182 | 185 | 5 | 4 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 195 | 187 | 198 | 3 | 11 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 198 | 189 | 212 | 14 | 23 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 196 | 188 | 201 | 5 | 14 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 192 | 183 | 194 | 2 | 11 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 185 | 177 | 179 | 6 | 2 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 178 | 173 | 180 | 3 | 8 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 171 | 166 | 180 | 9 | 14 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 164 | 160 | 173 | 8 | 13 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 159 | 155 | 168 | 8 | 13 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 155 | 153 | 161 | 6 | 8 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 151 | 149 | 153 | 2 | 4 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 146 | 144 | 147 | 1 | 3 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 140 | 139 | 142 | 1 | 3 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 134 | 132 | 136 | 2 | 3 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 127 | 126 | 127 | 1 | 1 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 120 | 119 | 121 | 1 | 2 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 113 | 112 | 114 | 0 | 2 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 107 | 105 | 104 | 3 | 2 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 101 | 99 | 100 | 1 | 0 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 96 | 94 | 95 | 0 | 1 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 91 | 90 | 92 | 1 | 2 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 87 | 86 | 88 | 1 | 2 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 84 | 83 | 84 | 0 | 1 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 81 | 80 | 82 | 0 | 1 |
| 96 | 23:45 - 24:00 | 79 | 78 | 80 | 1 | 2 |

**मेघालय के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday
Forecast For Meghalaya**

दिनांक/Date: 3/26/2025

| तिथि और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 243 | 237 | 236 | 8 | 2 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 240 | 234 | 233 | 7 | 1 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 237 | 231 | 226 | 11 | 5 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 235 | 229 | 224 | 12 | 6 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 234 | 228 | 222 | 13 | 7 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 233 | 227 | 219 | 14 | 8 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 231 | 225 | 224 | 7 | 1 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 230 | 224 | 219 | 12 | 6 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 230 | 224 | 217 | 12 | 7 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 230 | 224 | 214 | 16 | 10 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 231 | 225 | 214 | 17 | 11 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 230 | 224 | 213 | 17 | 11 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 230 | 224 | 217 | 13 | 7 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 229 | 223 | 214 | 15 | 9 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 230 | 224 | 213 | 17 | 11 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 229 | 223 | 215 | 14 | 8 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 229 | 223 | 216 | 13 | 7 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 228 | 223 | 217 | 12 | 6 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 230 | 224 | 220 | 9 | 3 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 232 | 226 | 218 | 14 | 8 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 238 | 232 | 219 | 18 | 12 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 249 | 243 | 232 | 17 | 11 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 266 | 259 | 246 | 19 | 13 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 286 | 279 | 266 | 20 | 12 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 304 | 296 | 280 | 24 | 16 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 318 | 310 | 292 | 26 | 18 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 327 | 319 | 298 | 29 | 21 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 331 | 323 | 301 | 31 | 22 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 332 | 318 | 295 | 37 | 23 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 328 | 314 | 299 | 30 | 15 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 321 | 308 | 298 | 23 | 9 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 311 | 297 | 290 | 20 | 7 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 301 | 283 | 275 | 26 | 8 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 292 | 275 | 257 | 35 | 18 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 285 | 268 | 251 | 34 | 17 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 277 | 260 | 248 | 29 | 13 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 269 | 253 | 249 | 20 | 4 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 263 | 247 | 252 | 11 | 5 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 258 | 243 | 249 | 9 | 6 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 255 | 240 | 248 | 7 | 8 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 253 | 238 | 242 | 11 | 4 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 251 | 237 | 232 | 19 | 4 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 251 | 237 | 232 | 19 | 4 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 251 | 236 | 234 | 16 | 1 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 249 | 234 | 240 | 9 | 6 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 247 | 232 | 236 | 10 | 4 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 245 | 230 | 233 | 12 | 2 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 244 | 230 | 239 | 5 | 10 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 244 | 230 | 237 | 7 | 8 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 244 | 230 | 235 | 9 | 5 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 244 | 230 | 232 | 12 | 2 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 240 | 226 | 229 | 11 | 3 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 234 | 221 | 236 | 2 | 16 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 230 | 217 | 236 | 6 | 19 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 230 | 216 | 237 | 7 | 21 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 232 | 218 | 239 | 6 | 20 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 236 | 226 | 239 | 3 | 13 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 241 | 230 | 243 | 3 | 13 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 246 | 235 | 247 | 1 | 12 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 250 | 239 | 251 | 2 | 12 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 255 | 249 | 256 | 0 | 7 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 260 | 253 | 260 | 1 | 7 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 262 | 256 | 275 | 13 | 19 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 264 | 257 | 273 | 10 | 16 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 264 | 257 | 278 | 14 | 21 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 264 | 258 | 282 | 17 | 24 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 269 | 262 | 290 | 21 | 28 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 274 | 267 | 296 | 22 | 28 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 284 | 283 | 299 | 16 | 16 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 292 | 291 | 304 | 12 | 13 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 304 | 304 | 311 | 6 | 7 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 318 | 318 | 319 | 1 | 1 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 331 | 336 | 335 | 4 | 0 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 338 | 343 | 333 | 5 | 10 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 340 | 345 | 332 | 8 | 13 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 337 | 342 | 321 | 17 | 21 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 335 | 339 | 324 | 11 | 15 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 330 | 335 | 326 | 4 | 9 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 328 | 333 | 325 | 3 | 8 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 324 | 329 | 323 | 2 | 7 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 319 | 323 | 317 | 2 | 7 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 314 | 319 | 313 | 1 | 5 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 310 | 315 | 306 | 4 | 8 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 310 | 314 | 302 | 8 | 13 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 306 | 311 | 305 | 1 | 6 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 302 | 306 | 298 | 4 | 8 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 293 | 297 | 287 | 5 | 10 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 283 | 287 | 275 | 7 | 11 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 272 | 276 | 270 | 2 | 6 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 261 | 265 | 263 | 2 | 1 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 252 | 255 | 251 | 1 | 4 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 243 | 247 | 251 | 8 | 4 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 237 | 240 | 245 | 9 | 5 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 233 | 236 | 240 | 7 | 4 |

| | | | | | | |
|----|---------------|-----|-----|-----|---|---|
| 95 | 23:30 - 23:45 | 230 | 234 | 235 | 5 | 1 |
| 96 | 23:45 - 24:00 | 228 | 231 | 231 | 3 | 0 |

मिज़ोरम के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday Forecast For Mizoram

दिनांक /Date: 3/26/2025

| तिथि और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 68 | 71 | 69 | 1 | 2 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 65 | 68 | 68 | 2 | 1 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 63 | 66 | 66 | 3 | 0 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 62 | 64 | 65 | 3 | 0 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 60 | 63 | 64 | 4 | 1 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 59 | 61 | 63 | 4 | 2 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 58 | 60 | 62 | 4 | 2 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 56 | 59 | 61 | 4 | 2 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 56 | 58 | 60 | 5 | 2 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 55 | 57 | 60 | 5 | 3 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 54 | 56 | 61 | 7 | 4 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 53 | 56 | 61 | 7 | 5 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 53 | 55 | 61 | 8 | 5 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 53 | 55 | 60 | 7 | 5 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 52 | 55 | 59 | 7 | 5 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 52 | 55 | 60 | 7 | 5 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 52 | 56 | 60 | 7 | 4 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 53 | 56 | 60 | 7 | 4 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 53 | 57 | 60 | 7 | 4 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 54 | 58 | 61 | 7 | 4 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 56 | 61 | 63 | 7 | 2 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 60 | 65 | 67 | 7 | 2 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 65 | 71 | 72 | 8 | 2 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 70 | 77 | 78 | 8 | 1 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 76 | 83 | 82 | 6 | 1 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 83 | 90 | 88 | 6 | 2 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 89 | 97 | 91 | 3 | 6 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 94 | 102 | 94 | 1 | 8 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 98 | 107 | 99 | 1 | 8 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 101 | 110 | 103 | 3 | 7 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 103 | 112 | 104 | 1 | 8 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 104 | 114 | 100 | 4 | 13 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 104 | 110 | 94 | 10 | 17 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 102 | 109 | 95 | 7 | 14 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 99 | 106 | 93 | 6 | 13 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 95 | 102 | 88 | 7 | 14 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 92 | 94 | 86 | 6 | 8 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 88 | 90 | 78 | 10 | 12 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 84 | 86 | 77 | 7 | 9 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 79 | 81 | 73 | 6 | 7 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 74 | 73 | 74 | 0 | 2 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 70 | 69 | 73 | 3 | 4 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 68 | 66 | 73 | 5 | 6 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 66 | 64 | 73 | 7 | 8 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 66 | 66 | 72 | 6 | 6 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 66 | 67 | 72 | 6 | 5 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 69 | 69 | 72 | 3 | 3 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 72 | 72 | 73 | 2 | 1 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 75 | 77 | 73 | 2 | 4 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 76 | 78 | 75 | 2 | 4 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 76 | 78 | 75 | 1 | 3 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 74 | 76 | 76 | 2 | 0 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 74 | 76 | 77 | 3 | 1 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 73 | 75 | 78 | 5 | 3 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 75 | 77 | 78 | 3 | 1 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 80 | 82 | 80 | 0 | 2 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 88 | 91 | 82 | 6 | 8 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 94 | 96 | 86 | 8 | 10 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 97 | 99 | 84 | 13 | 15 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 98 | 100 | 88 | 9 | 12 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 99 | 99 | 93 | 6 | 6 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 104 | 104 | 97 | 7 | 7 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 110 | 110 | 103 | 6 | 6 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 116 | 116 | 113 | 3 | 2 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 121 | 117 | 118 | 3 | 1 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 125 | 122 | 122 | 3 | 0 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 130 | 126 | 128 | 1 | 3 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 133 | 130 | 132 | 1 | 2 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 137 | 133 | 131 | 6 | 2 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 140 | 136 | 134 | 6 | 1 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 142 | 138 | 138 | 4 | 0 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 144 | 139 | 142 | 1 | 3 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 143 | 139 | 143 | 0 | 4 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 141 | 137 | 140 | 2 | 2 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 139 | 135 | 137 | 2 | 2 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 136 | 132 | 133 | 3 | 1 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 133 | 129 | 130 | 3 | 1 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 131 | 127 | 129 | 1 | 3 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 129 | 125 | 128 | 1 | 3 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 127 | 123 | 123 | 4 | 0 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 124 | 120 | 120 | 4 | 0 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 122 | 118 | 119 | 3 | 1 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 119 | 116 | 116 | 3 | 1 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 117 | 113 | 114 | 3 | 0 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 114 | 111 | 111 | 3 | 0 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 111 | 108 | 108 | 3 | 0 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 106 | 103 | 104 | 2 | 1 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 101 | 98 | 101 | 1 | 2 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 96 | 93 | 97 | 1 | 4 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 92 | 89 | 93 | 2 | 4 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 88 | 85 | 89 | 1 | 4 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 84 | 81 | 85 | 1 | 3 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 80 | 78 | 82 | 2 | 4 |

| | | | | | | |
|----|---------------|----|----|----|---|---|
| 94 | 23:15 - 23:30 | 77 | 75 | 78 | 2 | 4 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 74 | 72 | 75 | 1 | 4 |
| 96 | 23:45 - 24:00 | 71 | 69 | 73 | 2 | 4 |

नागालैंड के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday Forecast For Nagaland

दिनांक/Date: 3/26/2025

| तिथि और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 67 | 67 | 70 | 3 | 3 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 67 | 67 | 69 | 2 | 2 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 66 | 66 | 68 | 3 | 3 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 65 | 65 | 67 | 2 | 2 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 64 | 64 | 69 | 5 | 5 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 64 | 64 | 67 | 4 | 4 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 64 | 64 | 69 | 5 | 5 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 64 | 64 | 70 | 6 | 6 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 64 | 65 | 69 | 5 | 4 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 63 | 64 | 71 | 7 | 6 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 63 | 64 | 70 | 7 | 5 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 64 | 65 | 68 | 4 | 3 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 65 | 68 | 68 | 3 | 0 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 66 | 68 | 68 | 2 | 1 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 66 | 69 | 69 | 3 | 1 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 66 | 69 | 72 | 6 | 3 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 67 | 69 | 71 | 5 | 2 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 68 | 71 | 73 | 5 | 3 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 71 | 73 | 79 | 8 | 6 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 77 | 80 | 86 | 8 | 5 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 86 | 89 | 99 | 13 | 10 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 95 | 99 | 111 | 16 | 12 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 102 | 106 | 114 | 12 | 8 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 108 | 113 | 120 | 11 | 7 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 112 | 117 | 122 | 10 | 5 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 118 | 122 | 129 | 11 | 7 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 120 | 124 | 138 | 18 | 13 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 121 | 126 | 127 | 5 | 0 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 121 | 124 | 124 | 3 | 0 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 124 | 126 | 125 | 1 | 1 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 126 | 129 | 130 | 4 | 1 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 126 | 129 | 127 | 1 | 2 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 121 | 124 | 114 | 7 | 10 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 116 | 119 | 106 | 10 | 13 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 111 | 113 | 101 | 10 | 13 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 107 | 110 | 100 | 7 | 9 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 104 | 104 | 99 | 5 | 5 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 99 | 99 | 90 | 9 | 9 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 95 | 95 | 87 | 9 | 9 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 92 | 92 | 85 | 7 | 7 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 92 | 89 | 90 | 2 | 0 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 90 | 87 | 93 | 4 | 6 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 87 | 85 | 88 | 1 | 3 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 86 | 83 | 91 | 5 | 7 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 89 | 88 | 89 | 0 | 1 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 92 | 91 | 98 | 6 | 7 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 92 | 91 | 97 | 5 | 6 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 91 | 91 | 92 | 1 | 2 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 91 | 90 | 87 | 4 | 3 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 92 | 92 | 95 | 2 | 3 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 92 | 91 | 97 | 5 | 6 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 93 | 92 | 91 | 1 | 1 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 94 | 93 | 93 | 1 | 0 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 98 | 97 | 96 | 1 | 0 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 100 | 99 | 101 | 1 | 2 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 103 | 102 | 107 | 4 | 5 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 107 | 105 | 108 | 1 | 2 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 112 | 111 | 108 | 4 | 2 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 114 | 113 | 114 | 1 | 0 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 116 | 115 | 120 | 4 | 5 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 119 | 117 | 124 | 6 | 7 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 124 | 123 | 131 | 7 | 8 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 131 | 130 | 132 | 1 | 3 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 136 | 134 | 134 | 2 | 1 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 139 | 138 | 138 | 2 | 0 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 141 | 140 | 135 | 6 | 5 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 146 | 144 | 134 | 12 | 10 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 147 | 146 | 144 | 3 | 2 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 148 | 147 | 145 | 3 | 2 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 149 | 148 | 145 | 4 | 3 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 153 | 152 | 147 | 6 | 5 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 155 | 154 | 151 | 5 | 3 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 154 | 153 | 154 | 0 | 2 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 149 | 148 | 154 | 4 | 6 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 144 | 143 | 150 | 6 | 8 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 140 | 138 | 140 | 0 | 2 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 134 | 133 | 137 | 4 | 5 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 124 | 122 | 132 | 9 | 10 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 115 | 114 | 136 | 22 | 23 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 108 | 107 | 128 | 20 | 21 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 107 | 108 | 123 | 16 | 14 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 103 | 105 | 117 | 14 | 13 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 98 | 100 | 114 | 16 | 14 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 94 | 96 | 111 | 17 | 15 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 90 | 95 | 104 | 14 | 9 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 86 | 91 | 99 | 13 | 8 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 84 | 88 | 95 | 12 | 7 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 82 | 86 | 96 | 14 | 9 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 80 | 87 | 95 | 15 | 8 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 77 | 84 | 92 | 14 | 8 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 74 | 81 | 87 | 13 | 6 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 72 | 78 | 83 | 12 | 5 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 70 | 77 | 84 | 14 | 6 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 67 | 74 | 83 | 16 | 9 |

| | | | | | | |
|----|---------------|----|----|----|----|---|
| 95 | 23:30 - 23:45 | 65 | 72 | 79 | 14 | 7 |
| 96 | 23:45 - 24:00 | 63 | 70 | 77 | 14 | 7 |

त्रिपुरा के लिए अगले दिन और इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि / Forecasting Error For Day Ahead and Intraday Forecast For Tripura

दिनांक/Date: 3/26/2025

| तिथि और समय / Date and Time | | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग/ Day Ahead Forecasted Demand (A) | इंट्रा-डे पूर्वानुमानित मांग/ Intraday Forecasted Demand (B) | वास्तविक मांग/ Actual Demand (C) | अगले दिन की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Day Ahead Error (D) = (C) - (A) | इंट्रा-डे की पूर्वानुमानित मांग की त्रुटि/ Intraday Error (E) = (C) - (B) |
|-----------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| ब्लॉक/ Block | अवधि/ Period | MW | MW | MW | MW | MW |
| 1 | 00:00 - 00:15 | 249 | 272 | 266 | 17 | 6 |
| 2 | 00:15 - 00:30 | 245 | 245 | 268 | 17 | 6 |
| 3 | 00:30 - 00:45 | 243 | 265 | 258 | 16 | 7 |
| 4 | 00:45 - 01:00 | 240 | 261 | 256 | 17 | 5 |
| 5 | 01:00 - 01:15 | 240 | 262 | 253 | 13 | 9 |
| 6 | 01:15 - 01:30 | 237 | 259 | 249 | 11 | 10 |
| 7 | 01:30 - 01:45 | 236 | 258 | 243 | 7 | 15 |
| 8 | 01:45 - 02:00 | 234 | 255 | 243 | 10 | 12 |
| 9 | 02:00 - 02:15 | 232 | 254 | 247 | 14 | 7 |
| 10 | 02:15 - 02:30 | 231 | 253 | 245 | 14 | 7 |
| 11 | 02:30 - 02:45 | 231 | 252 | 246 | 14 | 7 |
| 12 | 02:45 - 03:00 | 233 | 255 | 247 | 14 | 8 |
| 13 | 03:00 - 03:15 | 234 | 255 | 247 | 13 | 9 |
| 14 | 03:15 - 03:30 | 231 | 252 | 246 | 15 | 6 |
| 15 | 03:30 - 03:45 | 228 | 249 | 243 | 15 | 6 |
| 16 | 03:45 - 04:00 | 227 | 248 | 243 | 16 | 5 |
| 17 | 04:00 - 04:15 | 232 | 253 | 240 | 8 | 14 |
| 18 | 04:15 - 04:30 | 236 | 258 | 217 | 19 | 41 |
| 19 | 04:30 - 04:45 | 235 | 257 | 214 | 22 | 43 |
| 20 | 04:45 - 05:00 | 230 | 251 | 210 | 19 | 40 |
| 21 | 05:00 - 05:15 | 224 | 236 | 218 | 6 | 19 |
| 22 | 05:15 - 05:30 | 224 | 236 | 207 | 16 | 28 |
| 23 | 05:30 - 05:45 | 221 | 233 | 205 | 16 | 28 |
| 24 | 05:45 - 06:00 | 217 | 229 | 202 | 15 | 27 |
| 25 | 06:00 - 06:15 | 214 | 226 | 208 | 6 | 18 |
| 26 | 06:15 - 06:30 | 219 | 231 | 210 | 9 | 21 |
| 27 | 06:30 - 06:45 | 230 | 243 | 217 | 13 | 26 |
| 28 | 06:45 - 07:00 | 243 | 257 | 225 | 18 | 32 |
| 29 | 07:00 - 07:15 | 256 | 260 | 224 | 31 | 36 |
| 30 | 07:15 - 07:30 | 264 | 268 | 230 | 33 | 38 |
| 31 | 07:30 - 07:45 | 268 | 273 | 237 | 32 | 36 |
| 32 | 07:45 - 08:00 | 270 | 275 | 235 | 35 | 40 |
| 33 | 08:00 - 08:15 | 272 | 264 | 239 | 33 | 25 |
| 34 | 08:15 - 08:30 | 273 | 265 | 243 | 30 | 22 |
| 35 | 08:30 - 08:45 | 274 | 266 | 246 | 28 | 20 |
| 36 | 08:45 - 09:00 | 273 | 265 | 248 | 25 | 17 |
| 37 | 09:00 - 09:15 | 273 | 256 | 249 | 24 | 7 |
| 38 | 09:15 - 09:30 | 270 | 253 | 247 | 24 | 7 |
| 39 | 09:30 - 09:45 | 267 | 251 | 244 | 24 | 7 |
| 40 | 09:45 - 10:00 | 264 | 248 | 247 | 7 | 9 |
| 41 | 10:00 - 10:15 | 264 | 248 | 251 | 13 | 3 |
| 42 | 10:15 - 10:30 | 264 | 247 | 236 | 27 | 11 |
| 43 | 10:30 - 10:45 | 264 | 248 | 243 | 21 | 4 |
| 44 | 10:45 - 11:00 | 266 | 250 | 250 | 16 | 0 |
| 45 | 11:00 - 11:15 | 272 | 255 | 253 | 19 | 3 |
| 46 | 11:15 - 11:30 | 277 | 260 | 250 | 27 | 10 |
| 47 | 11:30 - 11:45 | 279 | 262 | 244 | 35 | 18 |
| 48 | 11:45 - 12:00 | 280 | 263 | 250 | 30 | 13 |
| 49 | 12:00 - 12:15 | 281 | 264 | 247 | 34 | 17 |
| 50 | 12:15 - 12:30 | 284 | 267 | 250 | 34 | 17 |
| 51 | 12:30 - 12:45 | 289 | 271 | 253 | 36 | 18 |
| 52 | 12:45 - 13:00 | 293 | 275 | 260 | 33 | 15 |
| 53 | 13:00 - 13:15 | 296 | 273 | 256 | 41 | 17 |
| 54 | 13:15 - 13:30 | 298 | 274 | 255 | 43 | 19 |
| 55 | 13:30 - 13:45 | 299 | 275 | 262 | 37 | 13 |
| 56 | 13:45 - 14:00 | 298 | 274 | 264 | 34 | 10 |
| 57 | 14:00 - 14:15 | 295 | 267 | 260 | 35 | 6 |
| 58 | 14:15 - 14:30 | 294 | 266 | 262 | 32 | 4 |
| 59 | 14:30 - 14:45 | 293 | 264 | 264 | 28 | 0 |
| 60 | 14:45 - 15:00 | 290 | 262 | 258 | 33 | 5 |
| 61 | 15:00 - 15:15 | 286 | 258 | 262 | 24 | 4 |
| 62 | 15:15 - 15:30 | 283 | 256 | 267 | 16 | 11 |
| 63 | 15:30 - 15:45 | 281 | 254 | 267 | 14 | 13 |
| 64 | 15:45 - 16:00 | 284 | 256 | 272 | 12 | 16 |
| 65 | 16:00 - 16:15 | 285 | 257 | 272 | 12 | 15 |
| 66 | 16:15 - 16:30 | 286 | 258 | 271 | 15 | 13 |
| 67 | 16:30 - 16:45 | 286 | 258 | 266 | 20 | 8 |
| 68 | 16:45 - 17:00 | 290 | 262 | 265 | 25 | 3 |
| 69 | 17:00 - 17:15 | 296 | 268 | 274 | 23 | 6 |
| 70 | 17:15 - 17:30 | 305 | 276 | 281 | 25 | 5 |
| 71 | 17:30 - 17:45 | 315 | 285 | 295 | 20 | 10 |
| 72 | 17:45 - 18:00 | 329 | 297 | 302 | 27 | 5 |
| 73 | 18:00 - 18:15 | 340 | 307 | 311 | 29 | 3 |
| 74 | 18:15 - 18:30 | 344 | 311 | 319 | 26 | 7 |
| 75 | 18:30 - 18:45 | 344 | 311 | 316 | 28 | 5 |
| 76 | 18:45 - 19:00 | 341 | 308 | 311 | 30 | 3 |
| 77 | 19:00 - 19:15 | 339 | 307 | 309 | 30 | 2 |
| 78 | 19:15 - 19:30 | 336 | 304 | 308 | 28 | 4 |
| 79 | 19:30 - 19:45 | 334 | 301 | 302 | 32 | 1 |
| 80 | 19:45 - 20:00 | 332 | 300 | 301 | 30 | 2 |
| 81 | 20:00 - 20:15 | 332 | 300 | 301 | 30 | 2 |
| 82 | 20:15 - 20:30 | 331 | 299 | 300 | 31 | 1 |
| 83 | 20:30 - 20:45 | 330 | 298 | 298 | 31 | 0 |
| 84 | 20:45 - 21:00 | 328 | 296 | 296 | 31 | 0 |
| 85 | 21:00 - 21:15 | 324 | 293 | 289 | 35 | 4 |
| 86 | 21:15 - 21:30 | 320 | 289 | 287 | 33 | 2 |
| 87 | 21:30 - 21:45 | 314 | 284 | 284 | 30 | 0 |
| 88 | 21:45 - 22:00 | 310 | 280 | 279 | 31 | 1 |
| 89 | 22:00 - 22:15 | 302 | 273 | 275 | 27 | 2 |
| 90 | 22:15 - 22:30 | 295 | 267 | 270 | 26 | 3 |
| 91 | 22:30 - 22:45 | 288 | 260 | 264 | 24 | 4 |
| 92 | 22:45 - 23:00 | 285 | 257 | 261 | 24 | 4 |
| 93 | 23:00 - 23:15 | 281 | 254 | 253 | 28 | 1 |
| 94 | 23:15 - 23:30 | 278 | 252 | 251 | 27 | 0 |
| 95 | 23:30 - 23:45 | 275 | 248 | 247 | 27 | 1 |

| | | | | | | |
|----|---------------|-----|-----|-----|----|---|
| 96 | 23:45 - 24:00 | 270 | 244 | 245 | 25 | 1 |
|----|---------------|-----|-----|-----|----|---|